



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 35

11 दिसंबर, 2020

संख्या 50

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

मद	(₹ करोड़)				
	2019	2020		घट - बढ़	
	6 दिसंबर	27 नवंबर	4 दिसंबर	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	2248937	2744167	2746822	2655	497885
1.1 संचलन में नोट	2248925	2744155	2746809	2654	497884
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	12	12	13	1	1
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	100	101	1	1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना					
2.3 राज्य सरकारें	43	42	42	0	-1
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	540118	461900	476750	14850	-63368
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4643	5547	5613	66	970
2.6 अन्य बैंक	33600	29748	28193	-1555	-5407
2.7 अन्य	353313	948279	957835	9556	604522
3 अन्य देयताएं	1133173	1462954	1469301	6347	336128
कुल देयताएं / आस्तियां	4313927	5652737	5684657	31920	1370730
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3029698	3979928	3994646	14718	964948
2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी	193186	260651	263660	3009	70474
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1002053	1282067	1284536	2469	282483
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	52575	—	—	—	-52575
4.2 राज्य सरकारें	9072	2112	10576	8464	1504
4.3 नाबार्ड	—	23596	25833	2237	25833
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	14725	77097	77097	—	62372
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	—	—	—	—
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
4.8 अन्य	4930	18919	19693	774	14763
5 खरीदे और धुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
5.2 खजाना	—	—	—	—	—
6 निवेश	1964	1964	1964	0	—
7 अन्य आस्तियां	5724	6403	6652	249	928

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	4 दिसंबर 2020 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4275361	579346	18104	4525	673206	101539	1040488	125924
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3965740	537386	14734	3932	631925	95174	960323	116128
1.2 स्वर्ण	263659	35728	3008	535	33132	5150	70474	8650
1.3 विशेष आहरण अधिकार	11117	1506	49	12	317	74	835	65
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	34845	4725	313	46	7832	1142	8856	1081

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

04 दिसंबर, 2020 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹438471 करोड़	2020													
	21 नवंबर	22 नवंबर	23 नवंबर	24 नवंबर	25 नवंबर	26 नवंबर	27 नवंबर	28 नवंबर	29 नवंबर	30 नवंबर	1 दिसंबर	2 दिसंबर	3 दिसंबर	4 दिसंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	431462	431258	432867	432828	428744	428734	461900	459763	459313	446477	428882	429093	429784	476750
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	98.4	98.4	98.7	98.7	97.8	97.8	105.3	104.9	104.8	101.8	97.8	97.9	98.0	108.7

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	20 नवंबर 2020 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	201111	-2074	2931	-33237	32193	21352
1.2 बैंकों से उधार	40318	-14272	-18082	-23683	-6485	-21059
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	16474	-10	-3008	310	2361	4343
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14370700	-32612	384702	803208	1144899	1412227
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.2	3.1	5.9	9.7	10.9
2.1.1 मांग	1511517	16495	-179548	-105486	105777	179778
2.1.2 मीयादी	12859183	-49107	564249	908694	1039122	1232449
2.2 उधारियां	264021	5748	-56083	-45417	-26825	-58149
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	666517	59862	-35874	62841	-5706	158745
3 रिज़र्व बैंक से उधार	114711	248	-156442	-170912	-120326	90465
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	558067	21693	-38138	-65380	49631	-44379
4.1 उपलब्ध नकदी	86579	1062	10107	-682	8742	1595
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	471488	20631	-48245	-64698	40889	-45974
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	145811	-12069	5720	-9590	22247	-82957
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	9245	-2531	-13511	-11028	-3235	-9497
5.3 बैंकों को अग्रिम	20825	-193	-3821	-9706	-7095	-4989
5.4 अन्य आस्तियां	30608	-1187	-8545	-23424	8488	-3725
6 निवेश	4425325	-51337	338512	677976	293407	705757
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-1.1	10.0	18.1	8.6	19.0
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4423853	-51381	336867	685157	290781	707985
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1472	44	1646	-7181	2626	-2229
7 बैंक ऋण	10434550	15279	88580	63689	727676	574247
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	0.9	0.6	8.0	5.8
7 क.1 खाद्य ऋण	88956	5325	49694	37192	19016	-2348
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10345594	9954	38886	26497	708660	576595
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10268747	17764	140192	119238	741399	606561
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	23915	-289	-2598	-1743	4279	289
7 ख.3 भुनाए गए	97069	-2026	-37944	-48614	-14312	-23283
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	16331	-225	-1515	-4126	-1209	-6741
7 ख.5 भुनाए गए	28488	55	-9555	-1066	-2481	-2579

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2019	2020				
	6 दिसंबर	6 नवंबर	13 नवंबर	20 नवंबर	27 नवंबर	4 दिसंबर
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.50	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.73	3.72	..	3.88	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	75.80	72.34	..	72.61	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	30.62	5.79	..	7.93	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	28.69	31.08	..	30.79	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	71.15	87.26	..	84.41	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिर्वर्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.95/9.40	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.65/8.00	6.65/7.10	6.60/7.10	6.60/7.10	6.60/7.10	6.60/7.10
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.25/6.60	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	5.02	3.17	3.20	3.13	3.10	3.07
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.89	3.17	3.14	2.98	2.93	3.05
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.07	3.36	3.35	3.34	3.26	3.32
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.10	3.43	3.45	3.42	3.39	3.39
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.86	5.90	5.91	5.92	5.84	5.83
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	71.32	74.05	74.67	74.16	73.80	73.74
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	79.19	87.52	88.15	88.15	88.02	89.64
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.53	3.32	3.37	3.32	3.36	3.58
3-माह	3.53	3.51	3.54	3.56	3.52	3.58
6-माह	3.95	3.94	4.07	4.18	4.23	4.33

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीका/जूलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	20 नवंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	17938242	3387	0.0	513682	3.3	1138278	6.8	1426974	9.8	1992493	12.5
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2673572	35885	1.4	120278	5.9	323823	13.8	248042	12.9	501084	23.1
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1632939	17103	1.1	-178552	-11.0	-104753	-6.0	109695	8.2	184979	12.8
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13589828	-49846	-0.4	571385	4.9	915812	7.2	1062688	9.5	1296839	10.5
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	41904	246	0.6	570	1.8	3396	8.8	6549	25.4	9592	29.7
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5691514	-24555	-0.4	502352	11.4	731152	14.7	546252	12.6	800672	16.4
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	1023947	27601		163487		31755		252717		58509	
2.1.2 अन्य बैंक	3968170	4667567	-52156	-1.1	338865	9.4	699397	17.6	293535	8.1	742163	18.9
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	11092054	12505	0.1	85551	0.8	53410	0.5	743970	7.7	623784	6.0
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	12173	-2761		-8219		-993		-2174		5029	
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	11079881	15266	0.1	93770	0.9	54403	0.5	746144	7.7	618755	5.9
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4493779	45858	1.0	354381	11.5	692743	18.2	495510	16.9	1068558	31.2
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26541	-	-	235	0.9	193	0.7	426	1.7	418	1.6
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	3026427	3365646	30420	0.9	428837	17.6	339219	11.2	359184	14.3	500939	17.5
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1378342	1464944	-6659	-0.5	78296	7.4	86602	6.3	47123	4.3	327853	28.8

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	4 दिसंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3325784	12650	0.4	115342	4.2	296077	9.8	338199	13.3	439961	15.2
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचालन में करेंसी	2447312	2773350	2654	0.1	138333	6.5	326038	13.3	261129	13.0	498246	21.9
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमाराशि	543888	510556	13361	2.7	-23608	-3.9	-33332	-6.1	70089	13.8	-67805	-11.7
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	41879	-3365	-7.4	617	1.9	3371	8.8	6981	27.5	9520	29.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	1091996	55495		262417		99804		283152		27628	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	1081462	47031		254866		91721		281080		26123	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-580056	-45747		-447320		-379163		-337641		-285587	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-590932	-45448		-438851		-376873		-335701		-289569	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	4255119	8858	0.2	374076	13.1	664716	18.5	450117	16.2	1032456	32.0
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26541			291	1.1	193	0.7	392	1.5	362	1.4
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1378342	1467815	5956	0.4	74122	7.0	89473	6.5	57821	5.4	334898	29.6

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफ सी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+ 9+10+11+12+ 13-2-4-7-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4				5	6					
30 नवंबर 2020	-	27353	-	-	4950	-	-	-	-	-	-	-	-	-22403
1 दिसंबर 2020	-	695417	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-695396
2 दिसंबर 2020	-	702615	-	-	0	2200	-	-	-	-	-	-	-492	-700907
3 दिसंबर 2020	-	735303	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-735295
4 दिसंबर 2020	-	694192	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-694192
5 दिसंबर 2020	-	17282	-	-	1129	-	-	-	-	-	-	-	-	-16153
6 दिसंबर 2020	-	24	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	101

* इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

इसमें लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं। ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

** 'जुलाई 2020 की आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार ऋणात्मक (-) चिह्न विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश स्वरूप प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।'

& ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2019		2020		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	सितंबर	अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	145.8	147.2	156.4	158.4	1.3	6.6	7.6
1.1 ग्रामीण	146.7	148.3	157.5	159.7	1.4	6.6	7.7
1.2 शहरी	144.7	146.0	155.2	156.8	1.0	6.4	7.4
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	..	..	118.1	119.5	1.2	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	121.3	122.0	122.9	123.8	0.7	2.8	1.5
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	143.0	145.5	150.3	152.4	1.4	10.9	4.7
3.2 ईंधन और बिजली	100.6	102.3	91.0	91.1	0.1	- 8.4	- 10.9
3.3 विनिर्मित उत्पाद	117.9	117.8	119.8	120.3	0.4	1.4	2.1

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
6 नवंबर 2020	76335	1687	3.83 - 3.84
20 नवंबर 2020	67680	792	3.35 - 4.54

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
15 नवंबर 2020	389427	57002	3.09 - 11.32
30 नवंबर 2020	373146	64386	2.79 - 8.80

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	6 दिसंबर 2019	27 नवंबर 2020	4 दिसंबर 2020
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	17179	12157	8164
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	5980	1319	4631
3 सीबीएलओ#	325120	411117	521592
4 बाजार रेपो	229520	273258	388895
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	1554	1208	1150

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

4 दिसंबर 2020 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	1880	16619	77175	210409
182-दिवसीय	120915	40106	4238	250581
364-दिवसीय	143582	124369	12367	406447
सीएमबी				

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (4 दिसंबर 2020 तक)	2019 - 20 (6 दिसंबर 2019 तक)	2019-20	2020 - 21 (4 दिसंबर 2020 तक)	2019 - 20 (6 दिसंबर 2019 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	955000	570000	710000	824428	468972	473972
2. राज्य सरकारें	504206	344736	634521	415176	248468	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।